

DAV PUBLIC SCHOOL

BRS NAGAR, LUDHIANA

Dear Parents
Namaskar!

“It is heaven upon earth to have a man’s mind move in charity, rest in providence and turn upon the poles of truth.”

Being generous is being human. Keeping the essence of this in mind, ‘Sarvasva Tyagi Mahatma Hansraj Club’ of the school keeps on organizing various charity campaigns. This year we are collaborating with an NGO ‘City Needs’ to celebrate Daan Utsav and request you to donate generously the items of day to day needs (Old/New) in the class wise order as given under-

Class I : Educational toys, bicycles (big/small), indoor games material.

Class II : Kitchenware (utensils, tiffins, bottles), daily use medicine (first aid kits, tablets, capsules, masks, bandages and gloves)

Class III : Clothes, uniform, grocery, bed sheets, quilts, blankets etc.

Class IV : Sports goods (football, cricket kit, badminton racquets, bicycle (big/small), stationery items (pen/pencils/eraser), old books and note books.

Class V : Woollen clothes (socks, sweaters, caps, coats etc.) and grocery.

You are requested to deposit nicely packed usable items as listed above to the Class Teacher of your ward by 6th October, 2022. We are sure that you will extend full support to this endeavor directed to nurture the fine human values in the youngsters so that they turn out to be empathetic citizens of the society.

Hoping for your full support and co-operation.

(J.K. Sidhu)
Principal

डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल

बी.आर.एस. नगर, लुधियाना।

आह्वान

प्रिय अभिभावकगण,

हार्दिक नमस्कार ।

दूसरों के जीवन में फूल रूपी खुशियाँ बाँटने वाले हाथों में उनकी महक बसी रह ही जाती है। दान देने से मन आनंद और शांति से पुलकित हो उठता है। कुछ देने का भाव ही हमें मानवता की ओर बढ़ाता है। इसी दान परम्परा के पावन भाव को ध्यान में रखते हुए स्कूल द्वारा गठित 'सर्वस्व त्यागी महात्मा हंसराज कलब' समाज-भलाई की गतिविधियाँ करवाता रहता है। इस वर्ष की गतिविधियों के अन्तर्गत 'एनजीओ सिटी नीड्स दान उत्सव' द्वारा आप जैसे दानी सज्जनों से कुछ रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं (नई एवं पुरानी) का आह्वान किया जा रहा है। जरूरत की इन वस्तुओं को कक्षा अनुसार इस प्रकार बांटा गया है:-

- कक्षा प्रथम : शिक्षा उपयोगी खिलौने, साइकिलें (बड़ी/छोटी), इंडोर गेम्स का सामान
- कक्षा दूसरी : रसोई में काम आने वाला सामान (बर्तन, टिफिन, बोतलें) दैनिक प्रयोग की दवाइयां (प्राथमिक चिकित्सा किट, टेबलेट व कैप्सूल, मास्क, पट्टी, दस्ताने)
- कक्षा तीसरी : वस्त्र, यूनिफॉर्म, राशन - सामग्री, बिस्तर का सामान (चादरें, कंबल)
- कक्षा चौथी : खेलकूद का सामान (जैसे - फुटबॉल, क्रिकेट किट, बैडमिंटन, रैकेट), साइकिलें (छोटी / बड़ी), स्टेशनरी (पेन, पेंसिलें, रबड़, पुरानी किताबें एवं कापियाँ)
- कक्षा पांचवी : ऊनी कपड़े, जुराबें, स्वेटर, टोपी, कोट, अन्य कपड़े, राशन सामग्री

आपसे निवेदन है कि आप अपनी श्रद्धा अनुसार उपरोक्त सामान सुंदर ढंग से पैक कर के दिनांक 6 अक्टूबर, 2022 तक कक्षा अध्यापक को भेजें। कृपया बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नया व पुराना किंतु उपयोग करने योग्य सामान ही भेज कर कृतार्थ करें। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप अपने बच्चों में परोपकार का बीज अवश्य रोपेंगे ताकि वे संवेदनशील इंसान बन सकें।

आपके सहयोग की आकांक्षी

जे.के. सिद्ध

प्राचार्या